

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2024—भाद्र 1, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, अमित जाधव पिता एन.एल. जाधव निवासी—एफ—2, नर्मदा कॉलोनी, कठंगा जबलपुर. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अमित जाधव दर्ज है, मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र में, शासकीय सेवा अभिलेखों में एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अनित जाधव दर्ज है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो कि मैं, स्वयं हूँ. आज दिनांक से मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों/रिकार्ड में मुझे अमित जाधव नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अनित जाधव)
(Anit Jadhav)

(G-1775)

नया नाम

(अमित जाधव)
(Amit Jadhav)

नाम परिवर्तन

मैं, बापू सिंह अजनार पुत्र श्री काशी राम अजनार, निवासी—ग्राम डेकाकुंड, हवेली, फलिया, पोस्ट कनवाड़ा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, मार्कशीट में (BAPU SINGH AJNAR) है, परंतु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बापू सिंग अजनार /BAPU SING AJNAR लिखा हुआ है. मैं, अपने आधार कार्ड में मेरे नाम बापू सिंह अजनार/BAPU SINGH AJNAR अंकित करवाना चाहता हूँ. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. मेरे सभी दस्तावेजों जैसे कि बोर्टर कार्ड

आदि मैं मेरा सही नाम (BAPU SINGH AJNAR) लिखा है. मुझे मेरे सही एवं वर्तमान नाम बापू सिंह अजनार/ BAPU SINGH AJNAR के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम (बापू सिंह अजनार) (BAPU SING AJNAR) (G-1776)	नया नाम (बापू सिंह अजनार) (BAPU SINGH AJNAR)
---	---

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गौरावती पत्नी स्व. वेद प्रकाश (Smt. Gourawati W/o Late Ved Prakash) निवासी—मकान नं. 1853, राधाकृष्ण मंदिर रोड, नरसिंह नगर, राँड़ी, पोस्ट ऑफिस खमरिया, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित कर रही हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम भूलवश गोरी मिनोचा (Gori Minocha) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम गौरावती (Gourawati) है जो मेरे मतदाता फोटो पहचान—पत्र, स्थानीय मूल निवासी प्रमाण—पत्र, पी.पी.ओ. में अंकित है तथा दोनों नाम एक ही महिला अर्थात् मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं समस्त सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम गौरावती (Gourawati) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (गोरी मिनोचा) (Gori Minocha) (G-1777)	नया नाम (गौरावती) (Gourawati)
--	--

नाम परिवर्तन

मैं, सउनि धनेश धुर्वे (DHANESH DHURWEY) आत्मज—श्री महा सिंह धुर्वे निवासी—म.नं. 30/3, ग्राम बरसिंहा जनपद पंचायत अमरपुर, जिला डिंडोरी (म.प्र.), यह कि मेरा नाम धनेश धुर्वे है जो सत्य व सही है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम धनेश सिंह धुर्वे दर्ज है जबकि मेरी सेवा—पुस्तिका में मेरा नाम धनेश सिंह धुर्वे दर्ज है. अतः मेरे दस्तावेजों के आधार पर (आधार कार्ड, पेन कार्ड) मेरा नाम सुधार कर धनेश धुर्वे आत्मज—श्री महा सिंह धुर्वे पढ़ा व पहचाना जावे. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. मेरी सेवा—पुस्तिका में मेरा पूरा व सही नाम धनेश धुर्वे दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (धनेश सिंह धुर्वे) (G-1778)	नया नाम (धनेश धुर्वे)
--	--------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम लाल बहादुर (LAL BAHADUR) पिता सूर्यदीन पटेल अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन—कार्ड, बैंक पासबुक, अंकसूची में मेरा नाम लाल बहादुर पटेल (LAL BAHADUR PATEL) पिता का नाम सूर्यदीन पटेल (SURYADEVIN PATEL) दर्ज है. अंकित है, ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लाल बहादुर (LAL BAHADUR) के स्थान पर लाल बहादुर पटेल (LAL BAHADUR PATEL) एवं पिता का नाम सूर्यदीन पटेल के स्थान पर सूर्यदीन पटेल (SURYADEVIN PATEL) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम (लाल बहादुर) (G-1779)	नया नाम (लाल बहादुर पटेल) पिता का नया नाम – सूर्यदीन पटेल पता—ए, ब्लॉक एच.4, पुरानी फैमली लाइन, 6वीं बटालियन एस.ए.एफ. राझी तह.व. जिला जबलपुर.
--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अरशिया कमर पुत्री श्री कमर अली था. तथा भोपाल गैस के दस्तावेजों में त्रुटिवश बेबी अर्शी (Baby Arshi) दर्ज हो गया है. विवाह उपरांत अब मेरा नाम अरशिया अय्यूब खान पति श्री अय्यूब मोहम्मद खान (ARSHIA AYUB KHAN, W/o Mr. AYUB MOHAMMED KHAN) निवासी S/5, मोती महल अपार्टमेंट मोती मस्जिद के पास, मोतिया पार्क, भोपाल (म.प्र.) हो गया है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे इसी नए नाम अरशिया अय्यूब खान पति श्री अय्यूब मोहम्मद खान (AYUB MOHAMMED KHAN) से जाना व पहचाना जाये यही नाम मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है.

प्रार्थी

(G-1780)

(अरशिया अय्यूब खान).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समिति श्री कमला जनहिताय समिति, पता—दुर्गा काम्लेक्स, पन्ना रोड, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना, मध्यप्रदेश का कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं जिला रीवा मध्यप्रदेश में पंजीयन क्रमांक 07931 एवं दिनांक 13 फरवरी 2009 है. उक्त समिति में विद्यमान माननीय पदाधिकारी/सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी आत्मज श्री प्रभुदयाल चतुर्वेदी जी द्वारा उपाध्यक्ष पद से एवं श्रीमती मधु शुक्ला पत्नी श्री विपिन कुमार शुक्ला जी द्वारा कोषाध्यक्ष पद से अपने पद एवं सदस्यता से त्याग—पत्र दे दिया गया है. उक्त समिति में नए सदस्य एवं पदाधिकारियों के रूप में उपाध्यक्ष के पद पर श्रीमती दीपांशी त्रिपाठी पत्नी श्री विनय त्रिपाठी एवं कोषाध्यक्ष के पद पर श्री सुरेन्द्र कुमार सेन आत्मज श्री सुन्दरलाल सेन को समिति के उपस्थित माननीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है. उपरोक्त समिति की बैठक के उपरांत धारा 27 अन्तर्गत माननीय नए सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची एवं आवश्यक जानकारी संभागीय मुख्यालय कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं जिला रीवा मध्यप्रदेश को प्रेषित की जा चुकी है साथ ही कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं जिला रीवा से समिति की धारा 27 (माननीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची) की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो चुकी है.

भवदीय

(नितिन कुमार शुक्ला)

अध्यक्ष/सचिव

समिति का नाम :— श्री कमला जनहिताय समिति,

(G-1781)

समिति के कार्यालय का पता :— दुर्गा काम्लेक्स, पन्ना रोड, सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, माजिद अली S/o (स्वर्गीय) श्री हामिद अली निवासी—48—26, डोमनी गली तलैया रोड, भोपाल. मेरी पुत्रियों के शैक्षणिक तथा शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा घरेलू नाम कमर अली S/o हामिद अली दर्ज है, परंतु मेरा वास्तविक नाम माजिद अली (Majid Ali) S/o (स्वर्गीय) श्री हामिद अली (Late Mr. Hamid Ali) है. यही नाम मेरे सभी शासकीय /अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. जो पुत्रियों के दस्तावेजों में त्रुटि हुई है उसको संशोधित नाम से जाना व पहचाना जाये.

(माजिद अली).

(G-1782)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रुकमणी बाई पत्नी स्व. श्री रामदीन झिंझोरे, निवासी—मकान नंबर 01 से 139 ग्राम छिदगाँव मेल, तहसील टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम उमा बाई अंकित हो गया है, जो मेरा गलत नाम है. मेरा सही नाम रुकमणी बाई पत्नी स्व. श्री रामदीन झिंझोरे है, यही सत्य एवं सही नाम मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में अंकित होकर प्रचलन में है. सूचना प्रकाशन के बाद मुझे मेरे वार्ताविक व सही नाम रुकमणी बाई पत्नी स्व. श्री रामदीन झिंझोरे से पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

आवेदक

(G-1783)

(रुकमणी बाई).

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार मालवीय आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद मालवीय, निवासी आर.एच-43, सी-ब्लॉक, पुलिस रेडियो कालोनी, भद्रभदा रोड, भोपाल मध्यप्रदेश सूचित करता हूँ कि मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम मनोज मालवीय दर्ज है जबकि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम मनोज कुमार मालवीय है, जो कि सही एवं सत्य है.

पुराना नाम

(मनोज मालवीय)

(G-1784)

नया नाम

(मनोज कुमार मालवीय).

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा कटारिया (Pooja Katariya) सूचित करती हूँ कि आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम वर्षा कटारिया (Varsha Katariya) दर्ज हो गया था. जबकि मेरा सही नाम पूजा कटारिया (Pooja Katariya) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम पूजा कटारिया (Pooja Katariya) के नाम से जाना पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(वर्षा कटारिया)

(Varsha Katariya)

(G-1785)

नया नाम

(पूजा कटारिया)

(Pooja Katariya).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रमेश कुमार झंवर है तथा मेरा सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में रमेश कुमार महेश्वरी त्रुटिवश लिखा हुआ है. मेरा सही नाम रमेश कुमार झंवर सही एवं सत्य है. भविष्य में मैं, इसी नाम रमेश कुमार झंवर, जाना/पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम

(रमेश कुमार महेश्वरी)

(G-1786)

नया नाम

(रमेश कुमार झंवर)

पता—चन्द्रिका परिसर, गोरखपुर थाने के पीछे,
बनारसी दास भनोट वार्ड, खमरिया, जबलपुर, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मंजू झंवर है तथा मेरा सरकारी एवं गैर-सरकारी दस्तावेजों में मंजू महेश्वरी त्रुटिवशः लिखा हुआ है। मेरा सही नाम मंजू झंवर सही एवं सत्य है। भविष्य में मैं, इसी नाम मंजू झंवर, जानी-पहचानी जाऊंगी।

<p>पुराना नाम (मंजू महेश्वरी) (G-1787)</p>	<p>नया नाम (मंजू झंवर) पता : वार्ड नं. 19, जाकिर हुसैन वार्ड, सीमेंट रोड, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.).</p>
--	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में मुजफ्फर (MUZAFFAR) है एवं पासपोर्ट में मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी (MOHAMMED MUZAFFAR SIDDIQUI) है। मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम मुजफ्फर सिद्दीकी (MUZAFFAR SIDDIQUI) पहले से दर्ज है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मुजफ्फर सिद्दीकी (MUZAFFAR SIDDIQUI) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

<p>पुराना नाम (मुजफ्फर) (MUZAFFAR) (G-1788)</p>	<p>नया नाम (मुजफ्फर सिद्दीकी) (MUZAFFAR SIDDIQUI) पुत्र—श्री मोहम्मद मुबीन सिद्दीकी (MOHAMMAD MUBEEN SIDDIQUI) पता—मकान नंबर 6, सुल्तानिया रोड, चरक अस्पताल के पास, जहांगीराबाद भोपाल (म.प्र.).</p>
---	--

नाम परिवर्तन

यह कि मैं, जिमसी वर्गीस पिता एम.एल. वर्गीस Jimcy Varghese D/o. M.L. Varghese निवासी—Saint Joseph's tarbes Convent Divine Nagar, Gehunkheda, Kolar Road, Bhopal (M.P.) यह कि मेरा पूर्व नाम Mariam Varghese D/o. M.L. Varghese था जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में दर्ज है। वर्तमान में मुझे Jimcy Varghese D/o. M.L. Varghese के नाम से ही जाना—पहचाना जावे।

अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम Jimcy Varghese D/o. M.L. Varghese से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

<p>पुराना नाम (Mariam Varghese) (G-1789)</p>	<p>नया नाम (Jimcy Varghese)</p>
--	-------------------------------------

CHANGE OF NAME

I, DILIP GOUR have changed my name to DILIP KUMAR GOUR S/o. DWARKA PRASAD GOUR and now I would be known as DILIP KUMAR GOUR S/o. DWARKA PRASAD GOUR.

Old Name (DILIP GOUR)	New Name (DILIP KUMAR GOUR)
	S/o-DWARKA PRASAD GOUR Add.-Aashima Heights, Flat No. A-3, First Floor, Custom Colony, Kolar Road, Huzur, Bhopal.

(G-1790)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी बेटी को सुमन आत्मज श्री शिवराज सिंह मेहर के नाम से जाना व पहचाना जाता है जबकि मेरी बेटी के आधार कार्ड में मुस्कान आत्मज श्री शिवराज सिंह मेहर दर्ज है जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत सही नाम सुमन आत्मज श्री शिवराज सिंह मेहर लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुस्कान)	(सुमन).
आत्मज श्री शिवराज सिंह मेहर (G-1791)	

नाम परिवर्तन

मैं, अंजना सरावगी (ANJANA SARABAGI) पत्नि आलोक सरावगी सर्व साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पूर्व के नाम आरती एवं आरती गर्ग एवं आरती सरावगी (ARATEE AND ARTI GARG AND ARTI SARABAGI) थे. जो मेरे आधार कार्ड एवं मेरे पुत्रों एवं पुत्रियों के शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखे गये हैं. जबकि वर्तमान में मैं, अंजना सरावगी पत्नि आलोक सरावगी के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. आरती एवं आरती गर्ग एवं आरती सरावगी एवं अंजना सरावगी चारों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं मेरे पुत्रों एवं पुत्रियों के शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आरती एवं आरती गर्ग एवं आरती सरावगी के स्थान पर मेरा नाम अंजना सरावगी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरती एवं आरती गर्ग एवं आरती सरावगी) (G-1792)	(अंजना सरावगी पत्नि आलोक सरावगी) पता :— जगताप की गोठ, माधोगंज कन्या विद्यालय के पीछे, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गिरजा देवी (GIRJA DEVI) पत्नी भूपेंद्र सिंह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम गुड़डी (GUDDI) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, गिरजा देवी पत्नी भूपेंद्र सिंह के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. गुड़डी एवं गिरजा देवी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गुड़डी के स्थान पर मेरा नाम गिरजा देवी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुड़डी) (G-1793)	(गिरजा देवी) पत्नी – भूपेंद्र सिंह पता :— ग्राम दोलसा, पोस्ट पिपरसेवा, जिला मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शशी देवी (SHASHI DEVI) पत्नी ब्रजेन्द्र सिंह तोमर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का नाम भूरी देवी तोमर (BHOORI DEVI TOMAR) था जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, शशी देवी पत्नी ब्रजेन्द्र सिंह तोमर के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। भूरी देवी तोमर एवं शशी देवी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम भूरी देवी तोमर के स्थान पर मेरा नाम शशी देवी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(भूरी देवी तोमर)	(शशी देवी)
(G-1794)	पत्नी – श्री ब्रजेन्द्र सिंह तोमर पता :— पलू का पुरा रिठौना, अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, विशुद्ध कुमार जैन (Vishudh Kumar Jain) आत्मज स्व. श्री पी.सी. जैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का नाम आराध्या जैन (Aradhya Jain) था जो उसके शैक्षणिक प्रपत्रों में अंकित है। हमने उसका नाम परिवर्तित कर आयरा जैन (Ayra Jain) कर दिया है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को आयरा जैन (Ayra Jain) के नाम से सभी शासकीय/अद्वृशासकीय/अन्य दस्तावेजों में जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम	नया नाम
(आराध्या जैन)	(आयरा जैन)
(Aradhya Jain)	(Ayra Jain)
पुत्री – विशुद्ध कुमार जैन	पुत्री – विशुद्ध कुमार जैन 114, MR रोड, नव आदर्श कॉलोनी जबलपुर मध्यप्रदेश।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसर्स श्री विनायक स्टोन इंडस्ट्रीज जो बी-699, आनंद नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00172/11 दिनांक 27.09.2011 है। जिसमें दिनांक 20.7.2024 को श्री सोहन मित्तल पुत्र श्री दाऊदयाल मित्तल को नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक से श्रीमती मिथलेश मित्तल पत्नी श्री हरिओम मित्तल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई हैं एवं इसी दिनांक से भागीदारी फर्म का पता—बी-699, आनंद नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.) से परिवर्तित कर प्लॉट नं. आर-4,5,9,10 इण्डस्ट्रियल एरिया, बानमोर, जिला मुरैना (म.प्र.) हो गया है।

(G-1796)	M/s Shri Vinayak Stone Industries मुकेश कुमार बंसल (भागीदार) पता :— प्लॉट नं. आर-4,5,9,10 एरिया, बानमोर, जिला मुरैना (म.प्र.).
----------	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S S N J AGRO FOODS जो BAGHCHINI CHAURAHA JOURA ROAD, MORENA में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-44-01-0334-20 दिनांक 02 मार्च 2020 है. जिसमें दिनांक 11 मार्च 2024 को भागीदार श्री गिर्ज गोयल पुत्र श्री रामनिवास गोयल, निवासी गली नं. 06, नैनागढ़ रोड, मध्यूर टॉकीज के पास, मुरैना (म.प्र.) की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से स्वतः पृथक हो गये हैं.

M/S S N J AGRO FOODS

श्रीमती बबली गोयल पत्नी बृजेश गोयल
(भागीदार)

Baghchini Chauraha, Joura Road, Morena.

(G-1797)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चन्द्रकला पेसवानी (Chandrakala Pesswani) पत्नी श्री सुनील कुमार पेसवानी (Sunil Kumar Pesswani) निवासी :— जे सेक्टर-233, प्रियंका नगर, कोलार रोड, भोपाल, मेरी अवयस्क पुत्री कृतिका पेसवानी (Kratika Pesswani) के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों/शक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम कृतिका थापा (Kratika Thapa) पुत्री श्री करण बहादुर थापा (Karan Bahadur Thapa) अंकित है. मेरे पति श्री करण बहादुर थापा से संबंध विच्छेदित तथा विघटित हो जाने से मेरा विवाह श्री सुनील कुमार पेसवानी से हुआ है. अब, बच्ची के संरक्षक मैं, और मेरे पति श्री सुनील कुमार पेसवानी हैं.

प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को कृतिका थापा के स्थान पर कृतिका पेसवानी के नाम से लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कृतिका थापा)

(Kratika Thapa)

पुत्री श्री करण बहादुर थापा

नया नाम

(कृतिका पेसवानी)

(Kratika Pesswani)

संरक्षिका श्रीमती चन्द्रकला पेसवानी

(Chandrakala Pesswani)

पत्नी श्री सुनील कुमार पेसवानी

(Sunil Kumar Pesswani)

(G-1798)

उपनाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गौरी शंकर कुशवाहा अंकित है जो सही है. मेरी अंकसूचियों में गौरी शंकर काढ़ी अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है. गौरी शंकर काढ़ी और गौरी शंकर कुशवाहा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम गौरी शंकर कुशवाहा के नाम से लिखा—पढ़ा दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(गौरी शंकर काढ़ी)

(G-1799)

नया नाम

(गौरी शंकर कुशवाहा)

निवासी—आनंद नगर बोदाबाग, रीवा तह. हुजूर

जिला रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विशाल गेहलोत आत्मज श्री बाबूलाल गेहलोत, निवासी—गेहलोतपुरा कस्बा सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम विशाल गेहलोत (VISHAL GEHLOT) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश विशाल राजपूत हो गया है। अब, मैं, अपने वास्तविक व नये नाम विशाल गेहलोत (VISHAL GEHLOT) के नाम से जाना जाऊँगा एवं सभी शासकीय, अद्वशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

(विशाल राजपूत)

(VISHAL RAJPUT)

(G-1800)

नया नाम

(विशाल गेहलोत)

(VISHAL GEHLOT).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Gurdial Singh Developers having head office at 111, Bilhari, Mandla Road, Jabalpur (M.P.) is registered partnership firm.

Due to sudden death of shri Darshan Singh Gill on 17.09.2021 who was admitted as a partner on 31.7.2014, constitution of partnership changed. Now the partners of the firm as per partnership deed dated 18-4-2024 are :-

- (1) Shri Amandeep Singh Gill
- (2) Smt. Balwinder Kaur Gill

This Public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For, M/S Gurdial Singh Developers

Amandeep Singh Gill

Smt. Balwinder Kaur Gill

(Partner).

(G-1801)

CHANGE OF NAME

I, hereby declared that I have changed my name Tara Samtani W/o Harumal Samtani, Add-2 C, Sector Shriyantra nagar Behind Ganesh Nagar, Khandwa Road, Indore so from now on and in future, I will be known by my new name as Savitri Samtani W/o Harumal Samtani for all future purpose.

Old Name

(Tara Samtani)

(G-1802)

New Name

(Savitri Samtani).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू मालवीय, निवासी—वार्ड क्र. 07, ग्राम सिंगोन, पोर्ट हंडिया, तह. हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे सरकारी दस्तावेजों में राजेश मालवीय अंकित है, अपना नाम राजू मालवीय से बदलकर राजेश मालवीय कर लिया है।

पुराना नाम

(राजू मालवीय)

(G-1803)

नया नाम

(राजेश मालवीय)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम पूजा वालेचा पिता देवेन्द्र वालेचा था तथा मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. मेरा विवाह नितिन सोनी के साथ संपन्न होने उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित करके नया नाम दृष्टि सोनी (Drishti Soni) रख लिया है. उपरोक्त दोनों नाम अलग—अलग न होकर एक ही महिला मेरे ही नाम हैं तथा मेरा यही प्रचलित नाम दृष्टि सोनी (Drishti Soni) पति नितिन सोनी वर्तमान और भविष्य में जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम (पूजा वालेचा)	नया नाम (दृष्टि सोनी) पति—नितिन सोनी पता—137, ए—एम, स्कीम नं. 140, पिपल्याहाना, कनाडिया रोड, इंदौर (म.प्र.).
(G-1804)	

CHANGE OF NAME

I, RAJA BAJAJ S/o PRATAP BAJAJ, Add-12, SHEETAL NAGAR, MANISHPURI INDORE (M.P.) hereby declare that I have changed my name as Mahesh Bajaj S/o Pratap Bajaj so from now on and in future, I will be known by my new name as Mahesh Bajaj S/o Pratap Bajaj for all future purpose.

Old Name (Raja Bajaj)	New Name (Mahesh Bajaj).
(G-1805)	

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सना खान पुत्री कैलाश श्रीवास्तव, पत्नी अब्दुल वाहिद खान, निवासी—13, सालेहा परिसर, फेस—2, नरेला शंकरी, आनंद नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम पायल अहीरे पुत्री वसंत अहीरे था जो कि शादी के पश्चात् मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती पायल ब्राह्मणे पत्नी विवेक कुमार ब्राह्मणे कर लिया है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. मुझे मेरे सही व वर्तमान नाम श्रीमती पायल ब्राह्मणे पत्नी विवेक कुमार ब्राह्मणे से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम (पायल अहीरे) पुत्री—वसंत अहीरे	नया नाम (पायल ब्राह्मणे) पत्नी—विवेक कुमार ब्राह्मणे.
(G-1806)	

नाम परिवर्तन

मैं, सचिन सरावगी पिता स्व. श्री सुरेश चन्द्र सरावगी, निवासी—156, जी.व्ही.एम. रेसीडेन्सी, लक्ष्मीपुर, नियर एकता चौक, जेडीए स्कीम—41, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरी शैक्षणिक दस्तावेज एवं मेरा शासकीय कार्यालय के अभिलेख में मेरा नाम सचिन कुमार सरावगी अंकित है, मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सचिन सरावगी कर लिया है. अतः मुझे भविष्य में सचिन सरावगी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम (सचिन कुमार सरावगी) (Sachin Kumar Sarawgi)	नया नाम (सचिन सरावगी) (Sachin Sarawgi).
(G-1807)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम KALASH SHARMA S/o AKHILESH SHARMA है, यही नाम उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम ANVAY SHARMA दर्ज है. भविष्य में मेरे पुत्र को KALASH SHARMA के स्थान पर ANVAY SHARMA के नाम से ही जाना-पहचाना जावे व मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम ANVAY SHARMA दर्ज किया जावे.

आवेदक

AKHILESH SHARMA

(G-1808)

R/o Sanjay Nagar, Near Morena Pull,
Birla Nagar, Gwalior (M.P.).

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स रजिन्दर सिंह रतन (M/S Rajinder Singh Ratan) के नाम से एक भागीदार फर्म है. इस फर्म से दिनांक 1-7-2024 से एक भागीदार (1) श्री करुणा निधि सिंह, पिता श्री ननकाहू सिंह, निवासी अक्रोही, बांदीपुर, रामगढ़, कैमौर, बिहार बाहर हो रहे हैं एवं उक्त भागीदार फर्म में दिनांक 1-7-2024 से दो नए भागीदार (1) श्री प्रमोद कुमार, पिता श्री शिव नारायण प्रसाद, निवासी 12, 13th Cross, Rajanna Building, North Jalhalli, West Bangalore, Karnataka, (2) श्री सुरेश कुमार, पिता श्री कैलाश दास, निवासी, 23, Jarma, Dhanbad, Jharkhand-शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदार फर्म में दिनांक 1-7-2024 से संशोधन अपरात तीन साझेदार रहेंगे. उक्त भागीदार फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस मकान नं. 224, रांझी बाजार, जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है.

कुलदीप कौर रतन

(G-1809)

(पार्टनर)

नाम परिवर्तन

मैं, अल्ताफ हुसैन नगोरी पिता मुश्ताक हुसैन नागोरी माता शबाना बानो नागोरी निवासी-18/20, नागोरी कॉलोनी, महिदपुर, उज्जैन (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम अल्ताफ हुसैन पिता मुश्ताक हुसैन एवं माता का नाम शबाना बानो दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अल्ताफ हुसैन नागोरी पिता मुश्ताक हुसैन नागोरी एवं माता का नाम शबाना बानो नागोरी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अल्ताफ हुसैन नागोरी पिता मुश्ताक हुसैन नागोरी एवं माता शबाना बानो नागोरी के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(अल्ताफ हुसैन)

(अल्ताफ हुसैन नागोरी)

(G-1810)

पिता-मुश्ताक हुसैन नागोरी

नाम परिवर्तन

मैं, बिलकीस बी पत्नी अ. रशीद, निवासी-बी-20 शेड अशोका गार्डन भोपाल. मेरे घर का नाम मर्सरत जहाँ है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. मुझे मेरे सही नाम बिलकीस बी पत्नी अ. रशीद से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(मर्सरत जहाँ उर्फ बिलकीस बी)

(बिलकीस बी)

(G-1811)

पत्नी अ.रशीद

आम सूचना

M/s RICHMORE INFRASTRUCTURE फर्म के साझेदार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें, भोपाल, पंजीयन क्र. 01-01-01-0170-21 दिनांक 22 अगस्त 2021 है, जिसमें भागीदार क्र. 5 Shabbir Taher Ali Bharmal S/o Taher Ali Bharmal दिनांक 01-01-2024 को भागीदारण के रूप में समिलित/शामिल हुए उक्त साझेदार भागीदार क्र. 05, कहलायेंगे भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे।

**M/S RICHMORE INFRASTRUCTURE
(HUZEFA JUZER DHORAJIWALA).**
(Partner).

(G-1812)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कांता खतूरिया (Kanta Khaturiya) पत्नी श्री प्रकाश छाबरिया पुत्री श्री राम चन्द्र बत्रा, निवासी – बी-712, जीवन विहार पी एंड टी चौराहा, कोटरा सुल्तानाबाद, तह. हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम आरती छाबरिया (Aarti Chhabariya), अंकित है। मैं, अपने आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में अपना नाम संशोधित कर अपने पैन कार्ड के अनुसार श्रीमती कांता खतूरिया (Kanta Khaturiya) पत्नी श्री प्रकाश छाबरिया के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी।

पुराना नाम	नया नाम
(आरती छाबरिया) (Aarti Chhabariya)	(कांता खतूरिया) (Kanta Khaturiya)
(G-1813)	पत्नी—श्री प्रकाश छाबरिया।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री शार्वी जैन (SHARVI JAIN) पुत्री श्री दीपक जैन के नाम से जाना व पहचाना जाता है जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम आराध्या जैन (AARADHYA JAIN) अंकित है जो कि त्रुटिवश अंकित है एवं गलत है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम शार्वी जैन (SHARVI JAIN) पुत्री श्री दीपक जैन हो जायेगा।

भवदीय	पता — 91, अशोक नगर, इन्दौर (म.प्र.).
दीपक जैन	
(G-1814)	

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी पार्टनर शीप फर्म मे. आर. आर. अग्रवाल (कांट्रैक्टर) धार की रचना में दिनांक 8.12.2023 को परिवर्तन किया गया है। पूर्व में फर्म के साझेदार रमेशचंद्र अग्रवाल रिटायर हो गये हैं और उनके स्थान पर आशीष अग्रवाल पिता रमेशचंद्र अग्रवाल साझेदार के रूप में समिलित हो गये हैं। अब वर्तमान में दो साझेदार हैं 1. हेमंत पिता रमेशचंद्र अग्रवाल 2. आशीष पिता रमेशचंद्र अग्रवाल।

<p>भागीदार-1 भागीदार-2</p> <p>(G-1815)</p>	<p>मेरसर्स आर.आर. अग्रवाल हेमन्त अग्रवाल पिता रमेशचंद्र अग्रवाल 5 अ-3, बोहरा बाखल "रतन विला" धार (म.प्र.).</p> <p>आशीष अग्रवाल पिता रमेशचंद्र अग्रवाल 5 अ-3, बोहरा बाखल "रतन विला" धार (म.प्र.).</p>
--	--

संशोधन

मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीय डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 20 अगस्त 2024

[नियम 7 (5) देखिए]

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित योजना क्षेत्र का संशोधन/शुद्धि प्रकाशन की सूचना

विज्ञप्ति क्र. 11197—एमपीआईडीसी—क्षे.का.इ.—भू—अर्जन—2024.— मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 24, सन् 2013) की धारा 4 उपधारा (6) के अधीन निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना (इन्दौर—पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर) के अनुमोदित योजना क्षेत्र को मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2016 के नियम 7 के उपनियम (5) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वारा (अन्तिम रूप से) इसके पूर्व विज्ञप्ति मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 16 अगस्त 2024 को दैनिक समाचार—पत्र नईदुनिया एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 17 अगस्त 2024 को प्रकाशित कराई गई है।

उक्त विज्ञप्ति में क्रमांक (14) ग्राम भैंसलाय के खसरा नंबर टंकण त्रुटि होने से प्रकाशित नहीं हो सके, जो पूर्व से ही “प्रारूप योजना क्षेत्र” में समाविष्ट है, जो कि निम्नानुसार है :—

(14) ग्राम भैंसलाय के खसरा नंबर—

307 पार्ट, 308 पार्ट, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318 पार्ट, 319, 320 पार्ट, 321 पार्ट, 322 पार्ट, 323 पार्ट, 326 पार्ट, 327 पार्ट, 327 / 483, 328 पार्ट, 329, 330 पार्ट एवं 334 पार्ट। उल्लेखित खसरा नंबरों की भूमि को पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति में शामिल कर पढ़ा जावे।

उक्त प्रकाशन से असंतुष्ट व्यक्ति राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी से अभिप्रेत मध्यप्रदेश औद्योगिक इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन 21, अरेरा हिल्स, भोपाल के संचालक मण्डल से है।

सपना अनुराग जैन, कार्यकारी संचालक

(G-1816)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, लखनादौन, जिला-सिवनी, मध्यप्रदेश
लखनादौन, दिनांक 1 जुलाई 2024

प्ररूप – 4

[देखिए नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम 5 (1) देखिए] (पंजीयन)

लोक न्यास—लखनादौन (सिवनी जिले की संस्था)

क्र: 972—रीडर—1—2024—रा.प्र.क्र.—0001—बी—113—2024—25.— चूंकि "आचार्य विद्यासागर दयोदय गौशाला संरक्षण संस्थान" ग्राम पिपरिया, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी में संचालित आवेदक श्री राहुल जैन पिता स्व. कपूरचंद जैन निवासी—लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 30 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत के लिये आवेदन किया है।

अतः, मैं, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, लखनादौन, जिला सिवनी का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 1 जुलाई 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा—1 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट की चल संपत्ति : (1)गायें 30, (2)बैल 40, (3)बछड़ा/बछड़ी 30
2. ट्रस्ट की अचल संपत्ति : कृषि भूमि 1—ग्राम पिपरिया, प.ह.नं. 71, ख.नं. 39, रकबा 1.77 है, है, टीन शेड—60X60=3600 वर्गफुट

चल—अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम रहेगी।

नाम व पता — "आचार्य विद्यासागर दयोदय गौशाला संरक्षण संस्थान" ग्राम पिपरिया, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी।

(आज दिनांक को ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा द्वारा जारी)

हिमांशु जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

भाग 3 (1)]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर,
जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

राजपुर, दिनांक 24 जून 2024
फार्म नंबर - चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स - 5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

क्र. -रीडर-1-2024-3359-रा.प्र.क्र.-0002-बी-113-2022-23.- आवेदक अध्यक्ष, बालमुकुन्द त्रिवेदी,-निवासी नेहरू
मार्ग, देपालपुरा, जिला इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत “माँ कमला देवी नांगलवाड़ी
कुटुम्ब धार्मिक ट्रस्ट” के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर
दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत
समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24 जून 2024 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

जीतेन्द्र कुमार पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G- 1818)

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 8 अगस्त 2024

प्ररूप - चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश
लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2024-2071.- चूंकि, आवेदक सत्यनारायण पिता अनंतलाल व्यास, निवासी-3-31,
जवाहर नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा “श्री पुष्करण ब्राह्मण पारमार्थिक न्यास” उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधि-
नियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये
आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 10 सिंतबर 2024 को दोपहर 03:00
बजे रशन-सप्तांश विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-101 में विचार के लिए
लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार
रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का
पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 8 अगस्त 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित
जांच करना प्रथापित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राहय नहीं किया जाएगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. न्यास का नाम : "श्री पुष्करण ब्राह्मण पारमार्थिक न्यास"
2. कार्यालय : 3/31, जवाहर नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.)
3. अचल संपत्ति : वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति के रूप में करबा उज्जैन स्थित नरसिंहघाट क्षेत्र में भूमि सर्वे नम्बर 2545, रकबा 0.416 आरे स्थित प.ह.न. 38 के भाग 0.107 आरे दर्शाई है। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 1,40,00,000/- रु. है।
4. चल संपत्ति : वर्तमान में न्यास ने केनरा बैंक दौलतगंज उज्जैन में बचत खाता क्रमांक 0296101012272 में 8064/- रु. चल संपत्ति दर्शाई है।

(G- 1819)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, रजिस्ट्रार

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2024—भाद्र 1, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएँ

(कुछ नहीं)